



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940

No. 461]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGARHANA 12, 1940

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/14/2018.—अधिसूचना सं. 54-ईएल(1)/2/2018, तारीख 6 सितंबर, 2018 द्वारा 7 और 8 दिसंबर, 2018 की तारीखों को, कुछ चुने गए नगरों/शहरों, जिनके अंतर्गत हैदराबाद भी है, हेतु मतदान की तारीख या तारीखों और अन्य नगरों/शहरों हेतु 8 दिसंबर की तारीख को मतदान की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया था।

और 7 दिसंबर, 2018 को तेलंगाना राज्य की विधान सभा के लिए आगामी साधारण निर्वाचन की तारीख के रूप में उद्घोषित किए जाने के कारण, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के दक्षिणी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 24वीं परिषद् और 23वीं प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचन की तारीख के साथ सुमेलित हो रही है और विशेष रूप से साधारण निर्वाचन और हमारे निर्वाचन के लिए एकसमान मतदान केंद्र होने के कारण तथा हैदराबाद में हमारे निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्रों हेतु उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध न होने के कारण हैदराबाद में 7 दिसंबर, 2018 को मतदान केंद्रों में उक्त निर्वाचन नहीं कराए जा सकते हैं।

इन अपरिहार्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने हैदराबाद में अधिसूचित तारीखों को निर्वाचनों हेतु संभार व्यवस्थाओं और मतदान के संचालन को प्रभावित किया है, निम्नलिखित मतदान केंद्रों पर मतदान को स्थगित कर दिया गया है :

क्रम सं.	मतदान केंद्र संख्या	मतदान केंद्र
1	एस061 से एस068	हैदराबाद

अतः, अब उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दक्षिणी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचन के अभ्यर्थियों और प्रभावित मतदाताओं की साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त सारणी में यथा उल्लिखित हैदराबाद स्थित मतदान केंद्र सं. एस061 से एस068 हेतु मतदान के लिए 14 और 15 दिसंबर, 2018 को नई तारीखों के रूप में नियत किया गया है।

वी. सागर, रिटर्निंग आफिसर और सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./384/18]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/14/2018.—Whereas vide Notification No. 54-EL(1)/2/2018 dated 6th September, 2018, 7th and 8th December, 2018 were notified as the date or dates of polling for select cities/towns including Hyderabad and 8th December, 2018 for other cities/towns.

And whereas, due to the announcement of 7th December, 2018 as the date for forthcoming general election to the Legislative Assembly of State of Telangana, which is coinciding with the date of election to the Twenty Fourth Council and Twenty Third Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India in Southern India Regional Constituency and in particular due to clash of venue for general election and our election and non-availability of suitable alternative venue for Polling Booths in Hyderabad for our elections, the said elections could not be held on 7th December, 2018 in the polling booths set up in Hyderabad.

Keeping in view these compelling reasons which has affected logistical arrangements for election and conduction of polling on the notified dates in Hyderabad, the polling at the following polling booths have been postponed:—

S.No.	Polling Booth Nos.	Polling Centre
1	S061 to S068	Hyderabad

Now therefore, in view of above and in exercise of powers conferred on me under sub-rule (3) of rule 4 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, it is hereby notified for general information of the candidates for election to the Council from Southern India Regional Constituency and Southern India Regional Council and the affected voters that 14th and 15th December, 2018 have been appointed as the fresh dates for polling for Polling Booths No. S061 to S068 at Hyderabad as mentioned in the aforesaid table.

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./384/18]